



**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

इस भाग में निम्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह जसग सकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

तई दि नी ३ दिसम्बर १९६२

- 10 परीदाबाद
- 11 मयुरा जकशन
- 12 जलगाव
- 13 भयाना
- 14 नासिक रोड
- 15 मोलापुर
- 16 वस्त्रभण्ड
- 17 घाटवापर
- 18 कल्याण
- 19 सतना
- 20 धान
- 21 खडवा
- 22 मलमाड
- 23 बारामती
- 24 हावडा
- 25 मिमालदंड
- 26 तुल्डाबागा
- 27 किमपुर घाट
- 28 बाग बाजार
- 29 माहेन बाजार
- 30 काशीपुर (कल्याण पसन्त्याम)
- 31 वेनघण्या
- 32 साईपुर
- 33 टाटागड
- 34 वैरवपुर
- 35 श्याम नगर

36. श्रीवास्तव	91. बगौरी बेट
37. तैलानी जकणन	95. तैलानी जकणन
38. बचरागा	96. गुडनौर ज
39. कल्याण	97. नैलम ज
40. बालागञ्ज	98. मिथुनगञ्ज
41. बालागञ्ज	99. तैलानी
42. बज्ज	100. बज्ज
43. नादनपुर	101. बालागञ्ज (गुडनौर)
44. मरुपुर 80	102. मननगर
45. डायमंड टावर	103. मीला मीला
46. गमकियापुर	104. कावगुजा
47. हाथल गुडम	105. निजामाबाद
48. गोलीपुर गाँव	106. श्रीगञ्ज
49. लक्ष्मीकान्तपुर	107. मानवीरहेम करनौर
50. मिथपुर	108. माहगञ्ज
51. इलाहाबाद	109. हृदय
52. बालपुर मेडल गृहम शोध (बडल लाइन)	110. खम्मम
53. नयी दिल्ली	111. बगल
54. श्रीगञ्ज	112. बालागञ्ज
55. श्रीवास्तव	113. गञ्ज
56. श्रीमन्तर	114. टाटानगर
57. बरेली	115. कुलगाँव
58. बिकानेर	116. अद्वय
59. इलाहाबाद	117. मान गञ्ज
60. गजियाबाद	118. बालागञ्ज
61. इलाहाबाद	119. बालागञ्ज
62. जम्मू लक्ष्मी	120. बगल
63. आलमपुर मिटी	121. उदयगञ्ज
64. लखनऊ	122. श्रीगञ्ज
65. लखनऊ	123. मेवदा
66. मेरठ मरु	124. इलाहाबाद
67. मुरादाबाद	125. पागलुडा
68. मुरादाबाद	126. बालागञ्ज
69. बालागञ्ज	127. बालागञ्ज
70. न्यू बोगाई गाँव (बडल लाइन)	128. बालागञ्ज
71. न्यू बोगाई गाँव (मोटर लाइन)	129. हार
72. निनसुक्रिया गुडम	130. मिथुनपुर
73. न्यू गोहाटी	131. मादपुर
74. न्यू बालागञ्ज	132. प्रयाग बग
75. मिथपुर	133. राधा मोहनपुर
76. मिथुनपुर टाउन (गुडम)	134. नलपुर
77. मरुम सान्ट कौटिल	135. भागपुर
78. बगलौर मिटी जकणन	136. वीर शिवपुर
79. रायपुर	137. कुलधर
80. बालागञ्ज	138. जकपुर
81. गणेशपुर गुडम	139. आदल
82. कालम	140. गुरुलिया
83. मेरठ	141. बालागञ्ज
84. निधीन हार्बर टमिनल	142. बालागञ्ज
85. मरुट जकणन	143. बालागञ्ज
86. बिक्रमपुर जकणन	144. बालागञ्ज
87. बिक्रम	145. टाटल मिथुन
88. निरुधिरागञ्ज गुडम (बडल लाइन और मोटर लाइन)	146. बालागञ्ज मिटी
89. अगमालि (बालागञ्ज)	147. राऊरबेला
90. कायमबटूर जकणन (बडल लाइन और मोटर लाइन)	148. रायगञ्ज
91. कायमबटूर नार्थ जकणन	149. नैला
92. इलाहाबाद	150. बालागञ्ज
93. मगलौर	151. मिथुन

- 152 खगसिया
- 153 गढ़डोल
- 154 खन्दाकेला रोड
- 155 बनपुर
- 156 बगलभूम
- 157 चम्पा
- 158 अमलनगर
- 159 भादियाग
- 160 दुर्ग
- 161 रायपुर
- 162 पेठगा रोड
- 163 अश्वेरी
- 164 बहोदरा जं०
- 165 अमरावा जं०
- 166 दादर (पश्चिम रेलवे)
- 167 बम्बई (कर्णाट राज)
- 168 बोरोबली
- 169 कांकरिया
- 170 माहीम
- 171 बोर्दसर

[सं० टी० सी० नं० 81/223/1]

हिम्मत सिंह मन्त्रि, रेलवे बोर्ड

एवं पदेन संबन्धित मन्त्रि, भारत सरकार, रेल मन्त्रालय

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1982

S.O. 844(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 56(B) of the Indian Railways Act, 1890 (No. 9 of 1890), the Central Government, being satisfied that it is necessary that the goods booked by trains intended solely for the carriage of goods to any railway station should be removed without delay from such railway station and having regard to the factors specified in the first proviso to that sub-section, hereby declares the following railway stations as 'notified stations' for a period of six months with effect from 15-12-1982 namely:—

1. Bombay (Wadi Bunder)
2. Pune
3. Nagpur
4. Itwari
5. Belanganj
6. Jabalpur
7. Ahmednagar
8. Gwalior
9. Bhopal
10. Faizabad
11. Mathura Junction
12. Jaigaon
13. Akola
14. Nasik Road
15. Solapur
16. Ballarh
17. Ghatkhar
18. Kalyan
19. Satna
20. Thane
21. Khandwa

22. Manmad
23. Baraset
24. Habra
25. Sealdah
26. Uladanga
27. Chitpur Ghat
28. Baghbanai
29. Sahib Bazar
30. Cossipore (Calcutta Port Trust)
31. Belgharia
32. Sodapur
33. Titagarh
34. Barrackpore
35. Shyamnagar
36. Kankinara
37. Naihati Junction
38. Kanchrapara
39. Kalyani
40. Ballygunge
41. Kalighat
42. Budget Budget
43. Jadavpur
44. Baraipur Junction
45. Diamond Harbour
46. Ramkistapur
47. Howrah Goods
48. Cossipore Road
49. Lakshmikanthapur
50. Chitpur
51. Allahabad
52. Kanpur Central Goods Shed, B.G.
53. New Delhi
54. Aligarh
55. Ambala Cantt.
56. Amritsar
57. Bareilly
58. Bikaner
59. Dehradun
60. Ghaziabad
61. Hardwar
62. Jammu Tawi
63. Jullundur City
64. Lucknow
65. Ludhiana
66. Meerut Mandi
67. Moradabad
68. Varanasi
69. Saharanpur
70. New Bongaigaon (Broad Gauge)
71. New Bongaigaon (metre Gauge)
72. Tinsukia Goods
73. New Gauhati
74. New Jalpaiguri
75. Silchar
76. Siliguri Town (Goods)
77. Madras Salt Cotaurs
78. Bangalore City Junction
79. Royapuram
80. Calicut
81. Ernakulam Goods
82. Quilon
83. Mysore
84. Cochin Harbour Terminus
85. Madurai Junction
86. Virudhunagar Junction
87. Trichur
88. Tiruchchirappalli (Goods Broad Gauge and Metre Gauge).

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 89. Angamali for Kaladi                             | 132. Shyamchak                |
| 90. Coimbatore Junction (Broad Gauge & Metre Gauge) | 133. Radhamohanpur            |
| 91. Coimbatore North Junction                       | 134. Nalpur                   |
| 92. Erode Junction                                  | 135. Bhogpur                  |
| 93. Mangalore                                       | 136. Bishibpur                |
| 94. Bangalore Cantt                                 | 137. Phuleswar                |
| 95. Tuticorin                                       | 138. Jajpur                   |
| 96. Cuddalore Junction                              | 139. Adra                     |
| 97. Salem Junction                                  | 140. Purulia                  |
| 98. Secunderabad                                    | 141. Bankura                  |
| 99. Hyderabad                                       | 142. Salbani                  |
| 100. Vijayawada                                     | 143. Chakradharpur            |
| 101. Kolhapur (Gum Market)                          | 144. Bishnupur                |
| 102. Sant Narak                                     | 145. Tatisilwa                |
| 103. Maula Ali                                      | 146. Bokaro Steel City        |
| 104. Kacheguda                                      | 147. Rourkela                 |
| 105. Nizambad                                       | 148. Raigarh                  |
| 106. Aurangabad                                     | 149. Naila                    |
| 107. Sanyandem Curchorem                            | 150. Bilaspur                 |
| 108. Madgaon  | 151. Bhilai                   |
| 109. Hubli  | 152. Kharsia                  |
| 110. Khammam  | 153. Shadol                   |
| 111. Warangal                                       | 154. Chandrakone Road         |
| 112. Shahmar  | 155. Burnpur                  |
| 113. Ranchi   | 156. Barabhum                 |
| 114. Tetanagar                                      | 157. Champa                   |
| 115. Kulgachia                                      | 158. Akaltara                 |
| 116. Andul  | 159. Bhatapara                |
| 117. Sankard  | 160. Durg                     |
| 118. Bawia  | 161. Raipur                   |
| 119. Kolaghat                                       | 162. Pendra Road              |
| 120. Chengail                                       | 163. Andheri                  |
| 121. Ulberia  | 164. Vadodara Junction        |
| 122. Bagnan   | 165. Asarva Junction          |
| 123. Mechoda  | 166. Dadar (Western Rly.)     |
| 124. Deulti   | 167. Bombay (Cottonac Bridge) |
| 125. Panskura                                       | 168. Boriyali                 |
| 126. Balichuck                                      | 169. Kankaria                 |
| 127. Kharagpur                                      | 170. Mahim                    |
| 128. Contai Road                                    | 171. Boisar                   |
| 129. Haur   |                               |
| 130. Midnapur                                       |                               |
| 131. Madpur   |                               |

[No. TC1/81/223/1]

HIMMAT SINGH, Secy., Railway Board  
and Ex-Officio Joint Secy. to the Govt. of India